

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 1968/पौष 27, 1889

No. 21] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 1968/PAUSA 27, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January 1968

S.O. 312.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Footwear (Inspection) Rules, 1967, published in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2385 dated, the 17th July, 1967, namely:—

1. These rules may be called the Export of Footwear (Inspection) Amendment Rules, 1967.

2. In the Export of Footwear (Inspection) Rules, 1967, in clause (d) of rule 2, for the words "and Bombay", the comma and words "Bombay and Cochin", shall be substituted.

[No. 60(11)Exp.Insp/67.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

